



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

RBI/2016-17/37

FIDD.CO.Plan.BC.10/04.09.01/2016-17

August 11, 2016

The Chairman/ Managing Director/
Chief Executive Officer
[All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)]

Dear Sir/ Madam,

Priority Sector Lending status for Factoring Transactions

Please refer to [Master Direction FIDD.CO.Plan.1/04.09.01/2016-17 dated July 7, 2016](#) on Priority Sector Lending (PSL) and Guidelines dated December 3, 2014 for setting up of and operating the Trade Receivables Discounting System (TReDS) issued by Reserve Bank of India.

2. To increase liquidity support for the MSME sector, it has been decided that factoring transactions on 'with recourse' basis shall be eligible for priority sector classification by banks, which are carrying out the business of factoring departmentally. The factoring transactions taking place through TReDS shall also be eligible for classification under priority sector upon operationalization of the platform.

3. Banks may classify their outstanding factoring portfolio on the reporting dates under MSME category as per Paragraph 7 of Chapter (III) of [Master Directions on PSL dated July 7, 2016](#), wherever the 'assignor' in the factoring transaction is a Micro, Small or Medium Enterprise, subject to the corresponding limits for investment

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई -40001

Financial Inclusion & Development Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmincfidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

"चेतावनी: मेल रिज़र्व बैंक द्वारा-डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

in plant and machinery/ equipment and other extant applicable guidelines for priority sector classification.

4. In this regard, it is also reiterated that as per Paragraph 9 of Department of Banking Regulation [Circular DBR.No.FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated July 30, 2015](#) on Provision of Factoring Services by Banks - Review, inter-alia, the borrower's bank may also obtain from the borrower periodical certificates regarding factored receivables to avoid double financing/ counting. Further, the 'factors' must ensure to intimate the limits sanctioned to the borrower to the concerned banks and details of debts factored taking responsibility to avoid double financing.

Yours faithfully,

(A. Udgata)
Principal Chief General Manager